

गेल भवन,
16 भीकाएजी कामा प्लेस
नई दिल्ली-110066, भारत
GAIL BHAWAN,
16 BHIKAIJI CAMA PLACE
NEW DELHI-110066, INDIA
फोन/PHONE:+911126182955
फैक्स/FAX:+911126185941
ई—मेल/E-mail:info@gail.co.in

ND/GAIL/SECTT/2024

17.05.2024

Listing Compliance
 National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1,
 G Block, Bandra-Kurla Complex,
 Bandra (East) Mumbai – 400051

 Scrip Code: GAIL-EQ

Listing Compliance
 BSE Limited
 Floor 1, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
 Dalal Street
 Mumbai – 400001
 Scrip Code: 532155

Sub.: Newspaper Publication of the Audited Financial Statements for the quarter and year ended 31.03.2024

Dear Sir/Madam,

This is in compliance of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

With reference to the subject cited above, please find the attachment.

The above is for your information and records.

Thanking you, Yours faithfully,

(Mahesh Kumar Agarwal) Company Secretary

Encl: As above

MY INDIA

Senior advocate Sidharth

r. The court also deliberated

Luthra represented the accused in the case. Additional solicitor general SV Raju appeared for

Line court also deliberated on whether the accused could apply for ball under the regular provisions of the Code of Criminal Procedure (CrPC) if they appear pursuant to a summons issued by the special court under PMLA.

The special court under the contraction of the Code of Criminal Procedure (CrPC) if they appear pursuant to a summons issued by the special court under PMLA and the contraction of the Code of th

The Supreme Court granted interim protection to the accused in January. In the case, the Supreme Court cancelled the warrants issued against the accused output the second accused the special court and furnishing an undertaking that they will regularly show up during the court proceedings. They were also directed to furnish bonds under CPPC for their appearance before the court.

court.

By restricting ED's post-cognisance arrest powers, the
judgment sought to address
potential abuses where an
accused, complying with court
summons, could be taken into
custody and forced into the
complex and stringent bail
process under PMLA.

ED can't arrest after special court takes cognisance: SC PMLA. The verdict arose from a case questioning whether an accused not arrested during the case of the case question of the case of the c

NEW DELHI: The Supreme Court on Thursday ruled that the Enforcement Directorate (ED) loses the authority to arrest an accused once a special court takes cognisance of a c arrest an accused once a spe-cial court takes cognisance of a charge sheet filled under the Prevention of Money Launder-ing Act (PMLA), in a judgment that limits ED's power to exe-cute arrests and emphasises the inviolability of personal lib-erty.

the inviolability of personal lib-erty.

"Once cognisance is taken of the offence punishable under Section 4 of the PMLA, the spe-cial court is seized of the mat-tter. After the cognisance is taken, ED and other authorities named in Section 19 cannot exercise the power of arrest of the accused shown in the com-plant, held a been of upsteen plant, held a been of upsteen A charge sheet is called a prosecution complaint under PMLA.

The judgment significantly

prosecution compaint under PMILA. In the property of the prope

The court added it cannot The court added it cannot countenance a situation where before the filing of the complaint, the accused is not arrested but after the complaint is filed and the person appears in compliance with the summons of the trial court, he summons of the trial court, he is taken into custody and is forced to apply for bail. It directed that special courts should issue a summons to an accused who was not arrested during the probe, and not a

{ SUPREME COURT } After the cognisance is taken, ED and other authorities cannot exercise the power of arrest of the accused shown in the complaint HT

THE SC BENCH CLARIFIED THAT IF ED WANTS CUSTODY OF AN ACCUSED WHO APPEARS FOLLOWING SUMMONS, IT WILL HAVE TO SEEK PERMISSION OF CUSTODY FROM THE SPECIAL COURT

warrant.
"Hence, such a practice, if followed by some special courts, is completely lilegal. out in the special courts, is completely lilegal. right to libery guaranteed by Article 21 of the Constitution of India," said the bench, rejecting ED's contention that after an accused appears before a special court in compliance with the summons, he shall be the summons, he shall be summons, he shall be summons. It clarified that if ED wants are the summons that if ED wants are the summons and the summon summer that if ED wants are the summons are the summon summer than the summon summer than the summon summon summon summer than the summon summo

deemed to be in custody and must secure but a CEU and it. It clarified that if ED wants custody of the accused who appears following summons, the agency will have to seek permission of custody from the special court, which will hear pecial court, which will hear the court of th

twin test for bail under Section 45 of PMLA. Section 45 of PMLA stipu-

Section 45 of PMLA stipu-lates that the public prosecutor must be given an opportunity to oppose the ball application of the accused. Furthermore, it requires the court to be convinced that there are reasonable grounds to believe the accused is not

there are reasonable grounds to believe the accused is not gulty and is not likely to commit any offence while on bally make it challenging for an accused in a money laundering case to secure bail.

"If the accused appears before the special court by summons, I cannot be treated that he is in custody. When the special court deals with an application for cancellation of a warrant. The special policy of the special policy of the special court between the special court deals with an application for ball. Hence, Section 45(1) will have no application for ball. Hence, Section 45(1) will have no application for ball and the special court bench, adding that such an accused does not need to satisfy the wint conditions. to satisfy the twin conditions for bail under Section 45 of

MAN GETS 58-YR JAIL TERM FOR RAPING MINOR

Press Trust of India

letters/phindustantimes.com
KOZHIKODE: A Kerala court on
Thursday sentenced a 25-yearold man to a cumulative 58
years' imprisonment for repeatedly raping a 11-year-old girl
back between 2020 and 2021 at
her home.
The Ndapuram Fast Track
Special both Sentenced the accused
than the Sentenced the accused

sunant we sentenced the accused to varying durations of punish-ments for separate offences under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) from Sexual Offences (POCSO) Act and the IPC for a total of 58 years, Public Prosecutor Manoj Aroor said. However, as the sentences are

Seized cash belongs to Jharkhand minister: ED

RANCHI: The ₹32.2 crore cash seized from the residence of an alleged associate of Jharkhand minister Alamgir Alam belonged to the lawmaker, the Enforcement Directorate (ED) Enforcement Directorate (ED)
told special a PMLA court in
Ranchi on Thursday, a day after
the 70-year-old state parliamentary affairs and rural development minister was arrested on
money laundering charges after
two days of questioning,
On May 6, ED launched

Aroor said.
However, as the sentences are to be served concurrently and the maximum jail term given to the man is 20 years, he will serve 20 years in prison, Aroor said.
Solven in the convict, the prosecutor said.
The convict was sent to the central prison at Thavanur in Malappuram district of the state, head A. Cording to the prosecutor said.
The convict was sent to the prison of the said. According to the prosecutor, the accused made overtures of affection towards the gift and raped her several times between October 2020 to February 2021 when no one was home. The assault came to light affer she disclosed what happened to her when sike was housed in a children's home in Kozhikode.

Alamgir Alam

several official documents on let-terheads, which would have been kept under possession of Lal, from the residence of Jahangir establish that Lal was using this premise for keeping

Jahangir establish that Lal was using this premise for keeping documents, records, eash and other belongings related to Alam.

Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. which was found and seized from the Jahangir Alam's resi-dence, pertains to Alamgir Alam and same was collected by

omanga ratan at the instruction of Sanjeev Kumnar Lal who in turn was doing so on behalf of Alamgir Alam, the petition filed by ED stated.

Alam's lawyer AK Kanth said, My client voluntarily appeared before the ED as soon as a summons was issued to him. There is no evidence against him.

before the ED as soon as a summons was issued to him. There is no evidence against him so far...He should not have been arrested as he extended his full cooperation in the probe. The cooperation in the probe and the probe and

{ IN BENGALURU }

20-year-old found dead at home with throat slit

Coovercolly Indresh

BENGALURU: A 20-year-old col-lege student was found dead at her Bengaluru home on Thurs-day with her throat slit and lac-

day with ner throat sit and lae-erations on her hands, police officers familiar with the mat-ter said.

The woman was a second-year undergraduate student at a private university and lived with her mother and brother. The woman's mother said that she returned to her house on

POLICE SAID THAT THEY ALSO FOUND INJURIES ON THE INJURIES ON THE HANDS OF THE WOMAN, WHO WAS A SECOND YEAR UNDERGRADUATE STUDENT

Thursday evening after step-ping out and found the front door locked. She entered the house through the back door,

daughter dead in the wash-room.

"The student was found dead with stab wounds to her hand and neck. We are investigating to determine whether it was nurder or suicide. We have registered a case based on the mother's complaint, 'Lokes' stoner of police (DCP) Bengaluru South division, said.

said.
Police officers familiar with the matter said they also found

three notes from the woman's residence in which she apolo-gised to her mother. The woman's family, however, rejected the suicide angle. "We have registered a case under the Unnatural Death Rapper (LIDR) and conducted

Report (UDR) and conducted an autopsy at Kempe Gowda Institute of Medical Sciences. We are probing from all angles

NORTH CENTRAL RAILWAY 629

ways 🔀 @CPRONCR 🤌 @northcentralrailway 🕮 ww

1 The complete information of above E-Procuremen on (REPS website le.https://www.ireps.gov.in.(2) 8i m of E-Bids shall not be accepted against above Ter Vendors are required to get themselves registered long with class III digital signature certificates issued to 00. (3) Rates entered into Financial rate page and hall only be considered. Rates and any other financial miletter head if statushed by vendor shall be straight.

BMSICL 2" & 3" Floor, Swasthya Bhawan, Behind IGIMS, Sheikhpura Adjacent to State Health Society, Bihar, Patna- 800014 Phone/Fax: +919006405255, +919471009193

terms and conditions are available on the websi	te www.eproc2.binar.gov.in.
Tender Schedule	
Tender Reference No.	BMSIC/DRUGS/24-05
Date of Pre-Bid meeting	22 rd May 2024 at 14:30Hrs. at BMSICL Conference Hall, 3 rd Floor, Swasthya Bhawan, Behind IGIMS, Sheikhpura, Adjacent to State Health Society, Bihar, Patna - 800014
Last date and time of submission of online bids	11 th June 2024 by 17:00 Hrs.
Last date and time for submission of EMD and Tender Fees	13 th June 2024 till 14:00 Hrs.
Date, Time and Place of opening of Technical Bid	13 th June 2024 (at 15:00 Hrs.) on the website of www.eproc2.bihar.gov.in in the office of BMSICL
Date and time of opening of Financial Bids	To be announced later on www.bmsicl.gov.in and www.eproc2.bihar.gov.in
Validity of Tender	180 Days
Cost of the tender document	Rs. 11,800/- (Eleven Thousand Eight Hundred only) Non-refundable.
	GM (Procurement)

Phone/Fax - 193006405255, 19304710009393 bowl of this TUDER NOTICE

Tender for rate Contract and supply of Drugs for different healthcare facilities of state of Blazar Notice Invitating Tender Ref Not-19801/CONTRACT NOTICE (Only through E. Tender on website: - www.eproc2.blaz.gov.in)

Shar Medical Brown on website: - www.eproc2.blaz.gov.in)

Shar Medical Brown of Tender for rate contract and supply of Drugs for different healthcare facilities of state of Blazar, vide Notice Inviting Tender No-BROK(CPRUSC)/A
50. Detailed tender document containing eligibility criteria, selection mechanism, other terms and conditions are wallable on the website www.eproc2.blaz.gov.in

Tender Schedule	
Tender Reference No.	BMSIC/DRUGS/24-05
Date of Pre-Bid meeting	22 rd May 2024 at 14:30Hrs. at BMSICL Conference Hall, 3 rd Floor, Swasthya Bhawan,
	Behind IGIMS, Sheikhpura, Adjacent to State Health Society, Bihar, Patna - 800014
Last date and time of submission of online bids	11th June 2024 by 17:00 Hrs.
Last date and time for submission of EMD and Tender Fees	13 th June 2024 till 14:00 Hrs.
Date, Time and Place of opening of Technical Bid	13 th June 2024 (at 15:00 Hrs.) on the website of www.eproc2.bihar.gov.in in the office of BMSICL
Date and time of opening of Financial Bids	To be announced later on www.bmsicl.gov.in and www.eproc2.bihar.gov.in
Validity of Tender	180 Days
Cost of the tender document	Rs. 11,800/- (Eleven Thousand Eight Hundred only) Non-refundable.
PR. No. 000776 (B&C) 2024-25	GM (Procurement) BMSICL

लोकसभा आम निर्वाचन २०२४ – चुनाव का पर्व, देश का गर्व ।




GAIL (India) Limited (A Govt. of India Undertaking)

Catalyzing India's Energy Transition







- The above is an extract or the detailed privator for manical results for the quarter and manical year ended 15th March 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 and Regulation \$20 of SEII (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the Stock Exchanges website (www.nseindia.com, www.bseindia.com) and Company's website (www.gailonline.com).
- The above residence with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with the relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.
- For Other Line items referred in Regulation 52(4) SEBI (Listing and Other Disclosurs Requirements) Regulations, 2015 pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange website (www.nseindia.com, www.bseindia.com) and Company's website (www.gailionline.com).
- Figures for the previous periods have been regrouped, wherever necessary, to conform to the current period's classification.

For GAIL (India) Limited Sd/-

(CIN: L40200DL1984GOI018976)

सहकर्मी युवती ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, परिजन बोले- पुलिसकर्मियों ने मांगे थे पांच लाख रुपये **नजफगढ़ रोड छह लेन की बनेगी**

हिरासत में युवक की मौत,पूरी चौकी निलंबित

नोएडा विशेष संवाददाता। चिपियाना नाएडा, विशेष संवाददाता । चापयाना पुलिस चौकी की हवालात में गुरुवार सुबह एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों पारस्थातया म मात हा गई। पारजना हा आरोप है कि युवक को छोड़ने के लिए पुलिस ने पांच लाख रुपये मांगे और उन्होंने 50 हजार दे दिए थे। कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने पूरी पुलिस चौकी को निलंबित कर पूडीसीपी को मामले की जांच सौंप दी है।

विसरख थाने में एक महिला ने शिकायत करते हुए बेकरी में अपने ही साथ काम करने वाले योगेश पर दुष्कर्म

नोएडा, संवाददाता। सेक्टर-35 में

नाएडा, सवाददाता। सक्टर-35 म गुरुवार तड़के तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में ई-रिक्शा सवार नर्स समेत दो लोगों की मौत हो गई, जब्बिक तीन लोग गंभीर रूप से

18, जनाक तान पनार स्वयं स घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने कार सवार दो युवक तुषार और

आदि को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका साथी अमन सिसोदिया फरार है। सेक्टर-35 स्थित सुमित्रा हॉस्पिटल के सामने हादसा हुआ।

लग्जरी कार की टक्कर

से दो लोगों की जान गई

का आरोप लगाया था। योगेश मूलरूप से अलीगढ़ के खैर का रहने वाला था। पुलिस ने बुधवार शाम को हिरासत में लिया। उससे चिपियाना पुलिस चौकी

में पूछताछ चल रही थी। गुरुवार सुबह दस बजे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिजनों ने पुलिस चौकी पर हंगामा कर जाम लगाने का प्रयास किया। वे पुलिसकर्मियों पर योगेश की हत्या का आरोप लगा रहे थे। उनका कहना था रात में ही शराब की बोतल के लिए अलग से एक हजार रुपये पुलिसकर्मियों को दिए। बाकी रुपये सुबह देने की बात हुई थी। वहीं, पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अंगोछे से फंदा लगाकर आत्महत्या की।

की मौत हो गई, जबकि पवन, सूरज

और ई-रिक्शा चालक राजेंद्र घायल

हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि मतकों के परिजनों की तहरीर पर आरोपी युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

ालवा गवा ह। कार सवार तीनों युवक सुबह घूमने और बर्गर खाने के लिए जा रहे थे।पूछताछ में उन्होंने बताया कि उनकी कार अनियंत्रित होकर ई-

उनका कार आनयात्रत हाकर इ-रिक्शा से टकरा गई। पुलिन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। तीनों के पिता कारोबारी हैं।



वाली युवतियों

लाया गया था योगेश को

की भूमिका की जांच जारी पुलिस उसे दोबारा पुछताछ के लिए

सुनिती ने बताया कि कोतवाली प्रभारी बिसरख और अन्य वरिष्ठ अफसरों की भूमिका को लेकर भी जांच चल रही है। की एवज में पैसों की मांग की गई थी।

इस प्रकल्प में मोगर के भाई की ओर से दो युवतियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इन युवतियों पर आरोप है कि उत्तीने योगेश और उसके दोस्त पर युव्कर्म करने का आरोप लायाया था योगों में करों में साथ कमा करने वाती यो महिता सक्तियों सी परिपान था इनमें से एक महिता सहकामीं ने करींब देह महीने पहले उस पर युवकर्म करने का आरोप लगाया था, जबकि दूसरी महिता ने उसके दोस्त पर आरोप लगाया। बेकरी प्रवस्त ने चारों को नौकरी से निकाल दिया था। दो-तीन दिन पहले ही योगेश ने फिर से दर्सी बेकरी पर काम युक्क किया था।

🏿 M 🌀 F P I

WWRLD

FOOD INDIA 202419

प्रदर्शन, मिलाप एवं सहभागिता

sing for Prosperit

नीतिगत संगोष्ठी

विषयगत सत्र

🕪 फूड स्ट्रीट

19-22 सितम्बर, 2024

प्रगति मैदान, नई दिल्ली

स्टार्टअप पुरस्कार

बी2बी, बी2जी, जी2जी गोष्ठियाँ तथा आर. बी. एस. एम.

प्रदर्शनी

हि अच्छी खबर

गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। गुरुग्राम-नजफगढ़ रोड की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के नेतृत्व में हरियाणा और दिल्ली सरकार नतृत्व म हारवाणा आर ादल्ला सरकार मिलकर काम कर रही है। गुरुग्राम हिस्से में यह रोड छह लेन की है, लेकिन दिल्ली के हिस्से में दो लेन है। दिल्ली हिस्से में भी 1.738 किलोमीटर लंबी

दिल्ली सरकार ने 48 करोड़ का एस्टीमेट बनाया

25 एक इ जमीन की और जरूरत पडेगी

रोड की चौडाई को छह लेन करने की योजना है।

योजना को लेकर दिल्ली सरकार ने करीब 48.71 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाया है। इसके लिए करीब 25 एकड जमीन की जरूरत है। अभी

का अधिग्रहण हरियाणा सरकार की का आध्रप्रक्षण हारयाणा सरकार का तरफ से किया जाएगा या दिल्ली सरकार इसका अधिग्रहण करेगी। कौन अधिग्रहण राशि का वहन करेगा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के हिस्से में रोड की चौड़ाई बढाने को लेकर सर्वे किया है। इसवे लिए 25 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की जरूरत पड़ेगी। जीएमडीए ने इस मामले से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को अवगत करवा दिया है।

JAYPEE | IGNITED MINDS



JAYPEE INSTITUTE OF

INFORMATION TECHNOLOGY

AICTE Approved | UGC Approve **ADMISSIONS**

2024 Admission based on JEE Mains 2024 (AIR)

Bachelor of Technology (B.Tech) ➤ Computer Science & Engineering (CSE) ➤ Electronics & Computer Engineering (ECM)

- Mathematics & Computing (M&C)
- Electronics Engineering (VLSI Design ► Electronics & Communication and Technology)
 Advanced Communication Technology)
- (Option for Specializations / Minor in Al & ML, DA, Cyber Security, 5G & Advanced Technologies, VLSI Design & Technology, and Universal Human Values.)

Electronics & Communication Engine

- Electronics & Comment
 Engineering (ECE)
- **PLACEMENTS 2024 BATCH**

Last Date of Application 10 JUNE 2024

Contact: +91-7428630800/600, +91 (120) 2594400/30 ⊠ admission@jiit.ac.in ∰ www.jiit.ac.in/ 👩 🔞 🐧

गिरफ्तारी पर रोक लगाई वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने कहा कि मामले में सीबीआई

अदालत ने यादव सिंह की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अरबों रुपये के भ्रष्टाचार मामले में आरोपी रुपय के भ्रष्टाचार मामल में आरापा और नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामले में सीबीआई ने विशेष अदालत में पुरक आरोपपत्र दाखिल किए गए थे।

इसके बाद जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देने वाली सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर विचार कर्ते हुए यह अंतरिम आदेश दिया है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और प्रशांत

एलिवेटेड रोड आज से

पूरी तरह खुल जाएगा

67, एचएच-24 से सेक्टर-18 होकर डीएनडी और परीचौक की ओर जाने वाले वाहन पहले

आर पराचाक का आर जान वाल वाहन पहल की तरह एलिवेटेड मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे। रात 11 से सुबह छह बजे तक एलिवेटेड मार्ग पर डायवर्जन रहेगा। लोग असुविधा पैदा होने पर यातायात हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं। इमरजेंसी वाहनों को

काल न कहा कि मामल में साबाआई द्वारा पूरक आरोपपत्र दाखिल करने के बाद उनके मुवक्किल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन्होंने याचिकाकर्ता सिंह की

गरफ्तारी की आशंका जताते हुए, इस पर रोक लगाने की मांग की थी। अधिवक्ता की दलीलों पर संज्ञान लेते हुए, पीठ ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। पीठ ने सिंह की याचिका

मोदीनगर से युवक को

एक युवक का उसके दोस्तों ने अपहरण कर लिया। दोस्त युवक को जिला संभल के चंदौसी स्थित एक अस्पताल के सामने फेंककर फरार

ास्थत एक अस्पताल के सामन फककर फरार हो गए। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने मोदोनगर थाने में तहरीर दो है। संतपुरा कॉलोनी के गली नंबर आठ में साधुराम शर्मा परिवार के साथ रहते हैं। साधुराम ने बताया कि बुधवार को उनके पास चंदीसी के

अगवा कर संभल में फेंका नोएडा। सेक्टर-61 एलिवेटेड रोड वाहनों के लिए शुक्रवार से पूरी तरह खोल दिया जाएगा। सुबह छह से रात 11 बजे तक मार्ग खुला रहेगा। सेक्टर-31-25 से 18 तक री-सरफेर्सिंग का

मोदीनगर। नगर के संतपरा कॉलोनी निवासी

एक अस्पताल से फोन आया। उसने बताया कि आपका लड़का यहां भर्ती है। इसके बाद वह आपको लड़को यहा भता है। इसके बाद वह चंदौसी पहुंचे और अपने पुत्र रोहित को मोदीनगर ले आए। उन्होंने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी हालात गंभीर बनी ही। साधुराम ने बताया कि मंगलवार रात रोहित को उसका दोस्त बुलाकर ले गया था। बताया जा रहा है कि वह उसका अपहरण कर जिला संभल् ले गए और मारपीट की। हालात बिगड़ने पर उसे अस्पताल के बाहर फेंककर फरार हो गए। एसीपी मोदीनगर ने बताया कि युवक के होश आने पर सही जानकारी मिल पाएगी।

एक्सप्रेसवे और केजीपी को जोड़ने वाला इंटरचेंज एक वर्ष में बनेगा

प्रोजेक्ट अपडेट

ग्रेटर नोएडा. कार्यालय संवाददाता। नोएडा प्रटर नार्डा, बनवाराव राचाववाता नार्डा इंटरनेशनल एक्सप्रेसवे (केजीपी) को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने अध्ययन शुरू कर दिया है। इस कार्य में लगभग दो महीने से अधिक समय लगेगा। हालांकि, एनएचएआई ने दावा किया है कि इंटरचेंज का काम एक वर्ष

में पूरा कर लिया जाएगा। केजीपी को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के कजापा को यमुना एक्सप्रसंव से जाइन के लिए इंटरचेंज को बनाने का काम आठ माह पहले शुरू हुआ था। यमुना प्राधिकरण ने निजी कंट्रेक्टर को इसे बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। कटूक्टर का इस बनान का जिम्मदारा साथा था। प्रदेश के मुख्य सचिव ने इसका शिलान्यास किया था। इसके निर्माण में 122 करोड़ रुपये खर्च होने थे। दावा किया जा रहा था कि एयरपोर्ट शुरू होने से पहले इसे तैयार कर दिया जाएगा, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही विकासकर्ता कंपनी ने इसके निर्माण में लगने वाली मिट्टी पर खर्च होने वाले 22 करोड़ रुपये का एस्टीमेट डाल दिया और काम रुक गया। दोनों ही एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए इंटरचेज पर आठ लूप बनाने

2019 में चयनित हुई थी कंपनी

वर्ष 2019 में इस इंटरचेंज को बनाने का काम शुरू हुआ था, लेकिन किसानों के विवाद के चलते कंपनी काम नहीं कर पाई। पिछले साढे चार साल का समय किसानों के साथ विवाद न युत्तझने की वजह से बर्बाद हो गया। अब छह महीने पहले विवाद सुल्डा गया था, लेकिन उसके बाद संबंधित ठेकेदार कंपनी ने 22 करोड़ की मांग रख दी, जिसके चलते अब एक बार फिर से काम अटक गया है।

66 के जीपी और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने की जिम्मेदारी एनएचएआई को दी गई है।एनएचएआई ने इसका अध्ययन शुरू कर दिया है। इस कनेक्टिविटी में एक वर्ष तक का समय लगेगा।

-**डॉ . अरुणवीर सिंह**, सीईओ यमुना प्र

. हैं, जोकि कुल 6.6 किलोमीटर के होंगे। काम रुकने के बाद प्राधिकरण ने संबंधित ठेकेदार को बिना बजट बढ़ाए काम शुरू करने के लिए 15 मई तक समय दिया, लेकिन संबंधित कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। अब निर्माण की जिम्मेदारी एनएचएआई को दी गई।

गेल (इंडिया) लिमिटेड

<mark>(भारत सरकार का उपक्रम)</mark>



 प्रचालनों से कुल आय
 अवधि हेतु निवल लाग / (हानि) (कर, अपवादात्मक और / या असाधारण मद पूर्व)
 अवधि हेतु कर पूर्व निवल लाग / (हानि) (अपवादात्मक और / या असाधारण मद पश्चात) 1,33,499.54 1,45,875.03 32,858.20 1,44,301.61 32,833.24 1.30.638.11 33,264.06 688.90 2,841.7 590.85 11,554.56 6,583.8 3,099.27 688.90 12,595.0 7,256.3 अवधि हेतु कर पश्चात निवल लाम/(हानि) (अपवादात्मक और/ या असाधारण मद पश्चात) 2,176.9 603.50 8,836.48 5,301.51 2,474.31 642.74 9,902.8 5,595.89 अवधि हेतु कुल विस्तृत आय [अवधि हेतु लाम/ (हानि) (कर पश्चात) एवं अन्य विस्तृत आय (कर पश्चात) सहित] 3,846.49 12,142.03 4,146.10 प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य 10/- रु. प्रत्येक) रिज़र्व (पुनर्मुल्यांकन रिज़र्व के अलावा) 6,575.10 6,575.10 6.575.10 6,575.10 6,575.10 6,575.10 6.575.10 6.575.10 49,555.98 52,295.70 8 प्रतिभृति प्रीमियम खाता निवल मूल्य बकाया ऋण 56,131.09 16,413.08 16,413.0 14,308.74 14,308.74 11 बकाया विमोच्य वरीयता शेयर क्षण इकिटरी अनुपात (गुना में) प्रति शेयर आय (रु. में) (अंकित मूल्य रु.10/-प्रत्येक) (चालू और बंद प्रचालनों हेतु) 0.29 0.22 0.22 13.44 8.04 0.92 0.96 15.06 8.52 3.31 13.44 8.52 ्त्र ५५३५० (तिमाही हेतु ईपीएस का वार्षिकीकरण नहीं किया गया)
14 पूंजी रिडेम्पशन रिजर्व 126.74 126.74 126.74 126.74 ऋण सेवा आवृत अनुपात (गुना में) 3.12 3.31 ब्याज सेवा आवृत अनुपात (गुना में)

- भागवा--- अपर्युक्त भारतीय प्रतिमूर्ति और विगिमय बाँड (सूचीबद्धता और अन्य प्रकटन अध्यार), विगिममन, 2015 के विगिमम ३ एवं विगिम्पम ३ के अर्जान विस्तृत प्रास्थ्य में स्टिक एससेवा ने शब्दल किए गए 31 मार्च 2624 को समावा दिमारी वर्ष विगिय में के विशेष परिणामी का सार्चा है। विगीय परिणामों का सार्च्य प्राप्त स्टिक एससेवा की वेसाइट (www.nseindla-com, www.bseindla.com) और कंपनी की वेसाइट (www.galloniuc.om) पर पर्यवस्थ में

- 3. विनियम ६२ (६) सेवी (बुश्वीकरण और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में सर्वार्मित अन्य लाइन आवश्यक किरए स्टीक एस्पर्यमंत्र की में स्वारम्ध्य (अप्प्रक्राक्रांत्री किरा प्रदेश किरा स्टीक एस्पर्यमंत्री की में स्वारम्ध्य (अप्प्रक्राक्रांत्री किरा में अप्रकारिक किरा में किरा में अप्रकार किरा में एक में अप्रकार किरा में एक में अप्रकार के अप्रकार किरा में एक में अप्रकार के अप्रक्त के अप्रकार के अप्रकार के अप्रकार के अप्रकार के अप्रकार के अप्
- कृते गेल (इंडिया) लिगिटेड

हस्ता/— (आर के जैन) निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ (डीआईएनः 08788595)

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 16 मई, 2024 (सीआईएन:L40200DL1984GOl018976)

ा अड़ पर हमे फॉलो क